



स मा चा र

विधान सभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने रीवा के एसएएफ

परेड ग्राउंड में किया ध्वजारोहण

दिनांक 27 जनवरी, 2022

मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर रीवा के एसएएफ ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। श्री गौतम ने अवसर पर परेड की सलामी ली।

परेड के अवलोकन के बाद विधान सभा अध्यक्ष श्री गौतम ने मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया एवं प्रदेश-वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नागरिकों के सुखी एवं स्वस्थ जीवन की मंगलकामना की। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी के प्रदेश का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। इस प्रतिबद्धता के साथ राज्य को आत्म-निर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का सकल्प करें।

श्री गौतम ने अपने संदेश में कहा है कि देशभक्ति, त्याग और बलिदान का इतिहास समेटे यह पर्व हमें अपने उन पूर्वजों को याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है।

विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह ने किया ध्वजारोहण

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह ने गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधान सभा प्रांगण में आयोजित समारोह में प्रातः 8:00 बजे ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधान सभा सुरक्षा बल एवं विशेष सशस्त्र बल की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट भी किया गया।

परेड के अवलोकन के बाद प्रमुख सचिव श्री सिंह ने अपने संदेश में कहा कि हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान एवं संघर्ष के बाद हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हमारा यह दायित्व है कि हम पूर्वजों द्वारा दिये गये आदर्श मूल्यों का संरक्षण करें। श्री सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस एक अवसर होता है जब हम भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था प्रकट करते हुये राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों-दायित्वों के निर्वहन का प्रण लेते हैं।

इस अवसर पर विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारी एवं मीडिया कर्मी भी उपस्थित थे।

वि.स./ज.स./22

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव